



SUPER-TET

↔ Uttar Pradesh Basic Education Board ↔

परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ.प्र.

एडेक जूनियर हाई स्कूल

प्रधानाध्यापक

पेपर - 1 || भाग - 2

सामान्य विज्ञान एवं तार्किक ज्ञान



विषय शुची

शामान्य विज्ञान

भौतिक विज्ञान

1. भौतिक शाश्यां	1
2. गति	4
3. बल एवं गति विषयक नियम	7
4. कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा	11
5. गुण्ठत्वाकर्षण	12
6. आवर्त गति एवं तरंग	13
7. उष्मा	15
8. विद्युत धारा एवं चुम्बकत्व	17
9. प्रकाश एवं लेनस	20
10. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं नैनो प्रौद्योगिकी	23
11. नाभिकीय भौतिकी	24
12. संचार प्रणाली	28

इत्यायन विज्ञान

1. द्रव्य	31
2. परमाणु संरचना	34
3. रासायनिक अभिक्रियाएं एवं शमीकरण	38
4. अम्ल, क्षार एवं खनिज	40
5. आवर्त शारणी	44
6. धातुकर्म	47
7. धातु एवं उनके यौगिक	48
8. मानव जीवन में इत्यायन	53
9. बहुलक	55
10. pH एकेल	58

जीव विज्ञान

1. जीव विज्ञान की शाखाएं	60
2. जन्मतु जगत	61
3. कोशिका	63
4. जन्मतु ऊतक	65
5. पाचन तंत्र	66
6. पोषण	68
7. रक्त	69
8. हार्मोन	73
9. ककांल तंत्र	76
10.उटोडर्जन तंत्र	78
11.श्वसन तंत्र	81
12.मानव रोग	83
13.जैव तकनीकी	86
 1. दैनिक जीवन 2म्बन्धी विज्ञान	 92

तार्किक ज्ञान

1. शादृश्यता	115
2. वर्गीकरण	125
3. घडी	120
4. कैलेण्डर	137
5. कूट-भाषा परीक्षण	141
6. शृंखला	152
7. अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण	161
8. रक्त शंखंदा	172
9. अशमानता	180
10. तार्किक विचार	186
11. बूलियन बीजगणित	191
12. निर्णयन क्षमता	197

भौतिक विज्ञान

भौतिक राशियाँ

वे कभी राशियाँ, जिनकों यन्त्रों की काहायता से मापा जा सकता है तथा जिनका अम्बन्दू किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, भौतिक राशियाँ (Physical Quantities) कहलाती हैं;

आदिश तथा राशियाँ

आदिश राशियाँ इन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है; जैसे- द्रव्यमान, धनत्व, तापमान, विद्युत धारा, शमय, चाल, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, ढाब, ताप, आवृति, आवेश, ऊर्जा, विभव आदि आदिश राशियाँ (Scalar Quantities) हैं।

क्षणिक राशियाँ

इन्हे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है; जैसे- विश्वापन, वेग, त्वरण, बल, शक्ति, पृष्ठ तराव, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, चुम्बकीय क्षेत्र, चुम्बकीय तीव्रता, चुम्बकीय आघूर्ण, विद्युत धारा धनत्व, विद्युत छिद्धुव आघूर्ण, विद्युत धूवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि क्षणिक राशियाँ (Vector Quantities) हैं।

मात्रक

प्रत्येक भौतिक राशि को मापने के लिए ऐच्छिक परिमाण को मात्रक (Unit) कहते हैं; जैसे-लम्बाई को मापने के लिए अंगुल, बालिशत, कदम, गज का उपयोग होता है, परन्तु ये मात्रक प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है अर्थात् रावर्भौमिक एवं सर्वमान्य भी नहीं हो सकते हैं।

मूल तथा व्युत्पन्न मात्रक

वे मात्रक जो अन्य मात्रक से पूर्णतया अवतन्त्र हैं, मूल मात्रक (Fundamental Units) कहलाते हैं; जैसे-लम्बाई, द्रव्यमान, शमय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा आदि हैं वे राशियाँ जो मूल मात्रकों की काहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक (Derived Units) कहलाते हैं; जैसे- क्षेत्रफल, आयतन, ढाब, चाल आदि।

मात्रक पद्धतियाँ

मात्रकों की पद्धतियाँ निम्नवत् हैं

CGS पद्धति (सेमी-ग्राम-सेकण्ड पद्धति) इस पद्धति में लम्बाई सेण्टीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में व शमय सेकण्ड में मापा जाता है। इसे मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है।

FPS पद्धति (फुट-पाउण्ड-सेकण्ड पद्धति) इस पद्धति में लम्बाई फुट में, द्रव्यमान पाउण्ड में तथा शमय सेकण्ड में मापा जाता है। यह पद्धति ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानी जाती है।

MKS पद्धति (मीटर-किलोग्राम-सेकण्ड पद्धति) इस पद्धति में लम्बाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में तथा शमय सेकण्ड में मापा जाता है। वैज्ञानिक मापों में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है।

मूल मात्रक-

शारी	मात्रक का नाम	कंकेत
लम्बाई (Length)	मीटर (Metre)	m
द्रव्यमान (Mass)	किलोग्राम (Kilogram)	kg
शमय (Time)	सेकण्ड (Second)	s
विद्युत धारा (Electric Current)	ऐम्पर (Ampere)	A
ताप (Temperature)	केल्विन (Kelvin)	K
ज्योति-तीव्रता (Luminous Intensity)	कैण्डला (Candela)	cd
पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance)	मोल (Mole)	mol

प्रयोगिक मात्रक-

लम्बाई के प्रयोगात्मक मात्रक	द्रव्यमात्रा के प्रयोगात्मक मात्रक	काल के प्रयोगात्मक मात्रक
1 प्रकाश वर्ग = 9.46×10^{15} मी.	1 दिवंगत = 10^3 किलो	1 वर्ष = $365 \frac{1}{4}$ दीन दिवस
1 लोगोलिय मात्रक या $1\text{AU} = 1.5 \times 10^{11}$ मी.	1 मीट्रिक टर = 10^3 किलो	1 चंद्र माह = 27.3 दीन दिवस
1 पारंपरीक = 3.26 प्रकाश वर्ग $= 3.083 \times 10^{16}$ मी.	1 परमाणु द्रव्यमात्रा मात्रक = 1.66×10^{-27} किलो	1 दीन दिवस = 86400 सेकण्ड
1 मील = 1760 मी.	1 पाउण्ड = 0.4537 किलो	लीप वर्ष : वह वर्ष जिसके पश्चात शुरू माह में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष = 366 दिन
1 माइक्रोमीटर = 10^{-6} मी.	1 चंद्रशीक्षण लीमा = 14×10^6 शूर्य का द्रव्यमात्रा = 2.8×10^{30} किलो	
1 एंगर्ड्रोम = 10^{-10} मी.		
1 पर्सी = 10^{-15} मी.		

शार्थक अंक

किसी औतिक शाशि की माप शार्थक अंकों (Significant Digits) की संख्या से निर्धारित की जाती हैं जिनके अंकों की वह संख्या जिनके द्वारा किसी शाशि को निश्चित रूप से व्यक्त करते हैं, शार्थक अंक कहलाती हैं। किसी माप में शार्थक अंकों के अवधर्भ में मुख्य बातें मिश्वलिखित हैं

- मात्रक बदलने से शार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है।
- दशमलव की इथाति का शार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है; जैसे- 8.2 लीमी को यदि मिमी में व्यक्त करें, तो 82 मिमी लिखेंगे, परन्तु दोनों में दो ही शार्थक अंक हैं।

महत्वपूर्ण उपर्यां

उपर्यां	संकेत	गुणांक
एक्सा (Exa)	E	10^{18}
पीटा (Peta)	P	10^{15}
टेरा (Tera)	T	10^{12}
गीगा (Giga)	G	10^9
मेगा (Mega)	M	10^6

डेसी (Deci)	d	10^{-1}
सेन्टी (Centi)	c	10^{-2}
मिली (Milli)	m	10^{-3}
माइक्रो (Micro)	μ	10^{-6}
नैनो (Neno)	n	10^{-9}
पिको (Pico)	p	10^{-12}
फेम्टो (Femto)	f	10^{-15}
ऐटो (Atto)	a	10^{-18}

किसी औतिक शाशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर कुछ घातें चढ़ानी पड़ती हैं। ये घातें ही उस औतिक शाशि की विमाएँ (Dimensions) कहलाती हैं।

यान्त्रिक में लम्बाई (Length), द्रव्यमात्रा (Mass), काल (Time) तथा ताप (Temperature) की मूल शाशियों को व्यक्त करने के लिए त्रैमात्रा: L, M एवं T संकेतों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न व्युत्पन्न शाशियों की (M, L तथा T) की विभिन्न घातों के रूप में लिखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण शाशियों के विमीय त्रैमात्रा

औतिक शाशि	विमीय त्रैमात्रा
घनत्व	$[ML^{-3}T^0]$
त्वरण	$[ML^0T^{-2}]$
शक्ति	$[MLT^{-1}]$
ऊर्जा	$[ML^2T^{-2}]$
बल	$[MLT^{-2}]$

कार्य	$[ML^2T^{-2}]$
दब	$[ML^{-1}T^{-2}]$
शक्ति	$[ML^2T^{-3}]$
ब्ल-आघूर्ण	$[ML^2T^{-2}]$
आवेग	$[MLT^{-1}]$
कोण	$[M^0L^0T^0]$
शौर	$[ML^0T^{-3}]$

गति

गति एवं विराम

गति और विश्वास पिण्ड की दोनों अवस्थाएँ शापेक्षिक (Relative) होती हैं। एक पिण्ड, दूसरे पिण्ड के शापेक्षिक विश्वास वस्था (Rest) में होता है, जबकि उसकी स्थिति दूसरे के शापेक्ष न बदले और यदि कोई पिण्ड अपनी स्थिति दूसरे के शापेक्ष बदलता है, तो वह शापेक्षिक गति (Relative Motion) की अवस्था में कहलाता है; और ट्रैलगाड़ी में बैठे हुए मनुष्य के शापेक्ष गाड़ी में बैठे हुए अन्य यात्री स्थिर अवस्था में होते हैं, परन्तु उसके शापेक्ष बाहर के पेड़-पौधे आदि गति की अवस्था में होते हैं।

गति के प्रकार

गति मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है।

ऐक्षीय गति

ऐसी गति जिसमें कण या पिण्ड, एक शर्ल ऐक्ष के अनुदिश गतिमान हो ऐक्षीय गति (Linear Motion) कहलाती है; और शीघ्री शक्ति पर चलता हुआ घोड़ा, बद्धुक और निकली हुई गोली इत्यादि।

कोणीय गति

ऐसी गति जिसके कारण कण का स्थिति शक्ति तथा अक्ष के बीच के कोणों के मान बदल रहे हैं (अर्थात् गति का पथ वक्राकर हो), कोणीय गति (Angular Motion) कहलाती है।

घूर्णन गति

जब कोई पिण्ड किसी स्थिर अक्ष के परिवर्तन परिवर्तन करता है कि पिण्ड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर चलता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का केन्द्र उसके अक्ष पर होता है, तो पिण्ड की गति घूर्णन गति (Rotational Motion) कहलाती है; और आटा पीसने के पाट की गति, लट्ठु की गति आदि।

वृत्तीय गति


जब कोई कण किसी निश्चित बिन्दु को केन्द्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो उसकी गति वृत्तीय गति (Circular Motion) कहलाती है; और घड़ी की शुरू की ओर की गति, शुरू के चारों ओर पृथ्वी की गति आदि। यदि कण की चाल अचर है, तो गति असमान वृत्तीय गति (Uniform Circular Motion) कहलाती है। यदि कण की चाल चर है, तो गति असमान वृत्तीय गति (Non Uniform Circular Motion) कहलाती है।

कम्पनिक गति

जब कोई पिण्ड किसी निश्चित बिन्दु के इधर-उधर (To and Fro) गति करता है, तो उसकी गति कम्पनिक गति (Vibratory Motion) कहलाती है; और घड़ी के लोलक की गति, खिंग और लटके पिण्ड की गति आदि।

दूरी एवं विस्थापन

किसी गतिमान कण या वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल लम्बाई को कण या वस्तु द्वारा चली गई दूरी (Distance) कहते हैं, जबकि कण की अनितम स्थिति तथा प्रारम्भिक स्थिति के अन्तर की कण का विस्थापन (Displacement) कहते हैं।



यित्र में प्रदर्शित AB (A से B तक) विस्थापन है, जहाँ AB (वक्र पथ), किसी वस्तु द्वारा A से B तक पहुँचने के दूरी में चली गई दूरी को निर्दिष्ट करता है। यहाँ, AB एक शक्ति तथा AB एक अक्ष की दशति है।

$$\text{दूरी} = \text{चाल} \times \text{शमय}$$

तथा विस्थापन = वेग × शमय

दूरी अक्ष की शक्ति है, जबकि विस्थापन अक्ष की शक्ति है। SI पद्धति में दोनों शक्तियों का मात्रक 'मीटर' होता है।

चाल एवं वेग

कोई वस्तु एकांक शमय में जितनी दूरी तय करती है, वह उसकी चाल (Speed) है और कोई वस्तु एकांक शमय में किसी निश्चियत दिशा में जितनी दूरी तय करती है या विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का वेग (Velocity) कहते हैं। अब :

$$\text{चाल} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} \text{ तथा वेग} = \frac{\text{विस्थापन}}{\text{समयान्तराल}}$$

चाल एक ऋदिश राशि है, जबकि वेग शदिश राशि है। SI पद्धति में दोनों का मात्रक मीटर/सेकण्ड होता है।

औसत चाल एवं औसत वेग

यदि गए शमयान्तराल में एक छारा तय की गई दूरी तथा कण छारा इस दूरी को तय करने में लिए गए शमय के अनुपात को कण की औसत चाल (Average Speed) कहते हैं, जबकि कण के विस्थापन तथा कण छारा लिए गए शमय के अनुपात को उस कण का औसत वेग (Average Velocity) कहते हैं।

तात्काणिक चाल एवं तात्काणिक वेग

शमय के किसी निर्दिष्ट क्षण पर किसी वस्तु की चाल को तात्काणिक चाल (Instantaneous Speed) कहते हैं।

त्वरण

यदि किसी वस्तु के वेग में शमय के साथ परिवर्तन हो, तो इसके वेग-परिवर्तन की दर को इसका त्वरण (Acceleration) कहा जाता है तथा वस्तु की गति को त्वरित गति कहा जाता है।

$$\text{त्वरण} = \frac{\text{वेग-परिवर्तन}}{\text{शमयान्तराल}}$$

त्वरण एकशमान या अशमान हो सकते हैं। यह एक शदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर/सेकण्ड² होता है अर्थात् यदि शमय के किसी बिन्दु पर वस्तु का त्वरण

शमान हो, तो वह एकशमान त्वरण को व्यक्त करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो त्वरण अशमान हो सकता है।

एक शमान गति से गतिशील वस्तु के लिए त्वरण का मान शून्य होता है। ऋणात्मक त्वरण, मरण (Retardation) कहलाता है।

औसत त्वरण तथा तात्काणिक त्वरण

किसी निश्चियत शमयान्तराल में वेग-परिवर्तन की दर औसत त्वरण (Average Acceleration) कहलाती है। वही दूसरी और किसी विशेष क्षण पर, किसी कण का त्वरण कण का तात्काणिक त्वरण (Instantaneous Acceleration) कहलाता है।

एकशमान त्वरित गति के लिए गति के शमीकरण

यदि कोई कण किसी एक ही दिशा में एक शमान त्वरण से गति करता है, तो कण की गति एकशमान त्वरित गति (Uniformly Accelerated Motion) कहलाती है।

यदि एकशमान त्वरित गति में कण के प्रारम्भिक वेग u, अनितम वेग v, नियत त्वरण a, तथा विस्थापन का परिमाण या चली गई दूरी s हो, तब

1. $v = u + at$
2. $s = ut + \frac{1}{2} at^2$
3. $v^2 = u^2 + 2as$

(कण छारा त्वे शेकण्ड में चली गई दूरी)

वेग में वृद्धि होने पर त्वरण धनात्मक तथा कमी होने पर त्वरण ऋणात्मक लिया जाता है।

पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गति

शिथाति। यदि कम उर्ध्वाधर उपर की ओर गतिशान है, तो इस शिथाति में गति के शमीकरण निम्न प्रकार होंगे-

- (i) $v = u - gt$
- (ii) $h = ut - \frac{1}{2}gt^2$ तथा

$$(iii) v^2 = u^2 - 2gh$$

रिथति ॥ यदि कण उद्वाधर नीचे की ओर गतिमान है, तो इस रिथति में गति के अभिकरण निम्न प्रकार होगे

$$(i) v = u + gt$$

$$(ii) h = ut + \frac{1}{2}gt^2 \quad \text{तथा}$$


$$(iii) v^2 = u^2 + 2gh$$

अक्षमान त्वरित गति

किसी कण की वह गति, जिसमें उसका त्वरण नियत नहीं रहता है, अक्षमान त्वरित गति (Non - Uniformly Accelerated Motion) कहलाती है।

प्रक्षेप्य गति

जब किसी पिण्ड का एक प्रारम्भिक वेग (प्रक्षेपण वेग) से, उद्वाधर दिशा से अन्न दिशा में फेंका जाता है, तो वह गुरुत्वाय त्वरण के अन्तर्गत उद्वाधर तल में वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप्य गति (Projectile Motion) कहते हैं; जैसे- तोप से छूटे गोले की गति, ईंधन शमाप्त होने पर रोकेट की गति तथा हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति आदि।



प्रक्षेप्य पथ

इसके अनुसार, उद्वाधर दिशा से अन्न दिशा में फेंका गया पिण्ड एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसे प्रक्षेपण पथ (Projectile Path) कहते हैं। प्रक्षेप्य का पथ तभी परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य का पथ तभी परवलयाकार होता है, जब तक कि इसका वेग बहुत अधिक न हो।

प्रक्षेप्य गति के विशिष्ट तथ्य-

- प्रक्षेप्य का अभिकरण

$$y = x (\tan \theta) - \frac{g}{2 u^2 \cos^2 \theta} x^2$$

जहाँ, x = क्षैतिज विस्थापन तथा y = उद्वाधर विस्थापन

- कण द्वारा प्राप्त महतम ऊँचाई, $H_{\max} = \frac{u^2 \sin^2 \theta}{2g}$
- कण द्वारा उच्चतम बिन्दु तक पहुँचने या उच्चतम बिन्दु से पृथ्वी तक पहुँचने में लगा समय, $t = \frac{u \sin \theta}{g}$
- प्रक्षेप्य की उडान का कुल समय, $T = \frac{2u \sin \theta}{g}$ होता है।
- प्रक्षेप्य की महतम पथाल $R = \frac{u^2 \sin 2 \theta}{g}$ होती है।

प्रक्षेप्य गति से सम्बन्धित उदाहरण-

- एक गेंद को छत से नीचे गिराएँ तथा ठीक उसी समय दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंके, तो दोनों गेंदें पृथ्वी पर अलग-अलग स्थानों पर परन्तु एक साथ पहुँचेंगी।
- पेड पर बैठे बन्दर के ठीक शामने की ओर एक शिकारी निशाना लगाकर गोली छोड़ता है उसी समय बन्दर पेड से नीचे कूद जाए तो गोली बन्दर को ही लगती है। यदि बन्दर पेड पर ही बैठा रहे तो गोली गुरुत्व के कारण कुछ नीचे होने के कारण बन्दर को नहीं लगती है।
- यदि किसी तोप से 5 किंवद्दन तथा 10 किंवद्दन के दो गोले अमान वेग से एक ही दिशा में फेंके जाते हैं, तो दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुँचेंगे, क्योंकि गोलों के उडान का समय (उड़ायन काल) उनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।

वृतीय गति

जब कोई कण एक समतल में वृतीय पथ पर गति करता है, उसकी गति वृतीय गति (Circular Motion) कहलाती है।

तार्किक ज्ञान

शादृश्यता (ANALOGY)

किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से सम्बन्ध या समानता को शादृश्यता या समरूपता कहा जाता है।

शादृश्यता के अन्तर्गत शामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रकार 1 - हिन्दी शब्द शादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए हिन्दी शब्दों के सम्बन्ध पर विचार करते हुए दिए गए उत्तर विकल्पों में से एक ऐसे शब्द को ज्ञात करना होता है, जिसका सम्बन्ध दिए गए शब्दों या तीसरे शब्द के साथ स्थापित हो सके।

(i) समरूप शब्द ज्ञात करना :- इसके अन्तर्गत पूछे गए प्रश्नों में दिए गए दो शब्दों के सम्बन्ध पर विचार करते हुए उत्तर विकल्पों में से ऐसे शब्द को ज्ञात करना होता है, जिसका सम्बन्ध दिए गए तीसरे शब्द के साथ स्थापित होता है।

उदाहरण - 1 :- दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित शब्द को चुनिए।

नदी : धारा : महाशागर : ?

- | | |
|------------|------------|
| (A) प्रवाह | (B) तालाब |
| (C) बाँध | (D) समुद्र |

Ans - (A) प्रवाह

हल:- जिस प्रकार नदी के पानी से धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महाशागर के पानी से प्रवाह उत्पन्न होता है।

उदाहरण - 2 :- जिस प्रकार कोलम्बो, श्रीलंका से सम्बन्धित है, उसी प्रकार काठमाण्डू किंशुरे सम्बन्धित हैं ?

- | | |
|------------|-----------|
| (A) तिब्बत | (B) भारत |
| (C) भूटान | (D) नेपाल |

Ans. (D) नेपाल

हल:- जिस प्रकार कोलम्बो, श्रीलंका की राजधानी है, उसी प्रकार, काठमाण्डू नेपाल की राजधानी है।

(ii) समरूप युग्म ज्ञात करना :- इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में दो शब्द दिए होते हैं, जो कि आपस में किसी प्रकार से सम्बन्धित होते हैं। ठीक इसी प्रकार का सम्बन्ध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी होता है।

उदाहरण - 3 :- दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित शब्द - युग्म को चुनिए।

उद्देशिका : संविधान :: ? : ?

- | |
|--------------------------|
| (A) शब्द : शब्दकोश |
| (B) विषय-वस्तु : पत्रिका |
| (C) अष्टीकरण : कविता |
| (D) प्रत्यावर्त : पुस्तक |

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, संविधान की उद्देशिका होती है, ठीक उसी प्रकार पुस्तक की प्रत्यावर्त होती है।

(iii) शब्दों के समरूप शब्द तथा समरूप शब्दों के लिए विशेष वर्ग चुनना

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में कुछ शब्द दिए होते हैं। आपको दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनना होता है जो ठीक वैशा ही हो और उसी की आरम्भ में दिए गए शब्द है और वह शब्द ज्ञात करना होता है जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच विशेषता दर्शाता है।

उदाहरण - 4 :- कौन वैशा ही है और - भूकम्प, चक्रवात, उवालामुखी विल्फोट

- | | |
|-----------------|--------------------|
| (A) वैशिक ऊज्ञा | (B) बाढ़ |
| (C) दुर्घटनाएँ | (D) परमाणु विल्फोट |

Ans. (B) बाढ़

हल: जिस प्रकार भूकम्प, चक्रवात एवं ऊवालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदाएँ हैं। उसी प्रकार बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है।

उदाहरण - 5 :- नीचे तीन शब्द दिए हैं, जिनमें कुछ शामान्य विशेषता हैं, शही विकल्प को चुनिए।

शौप, छिपकली, मगरमच्छ

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) शरीरशूप | (B) स्तनधारी |
| (C) शर्वधारी | (D) हिरण |

Ans. (A)

हल:- शौप, छिपकली और मगरमच्छ तीनों शरीरशूप हैं।

उदाहरण - 6 :- वह विकल्प ज्ञात कीजिए, जिसमें वही शब्दन्ध हो, जो नीचे दिए गए तीनों शब्दों में है।

राजा, रानी, महल

- | |
|------------------------------|
| (A) कबूतर, चिड़िया, छोंगधालय |
| (B) बकरा, बकरी, किला |
| (C) भौंगा, मकड़ी, जल |
| (D) शेर, शेरनी, गुफा |

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, राजा - रानी दोनों शाथ में महल में निवास करते हैं, उसी प्रकार शेर और शेरनी दोनों शाथ में गुफा में निवास करते हैं।

(iv) दोहरी शब्दन्धता :- इसके अन्तर्गत प्रश्न में यिन्ह (::) के बाई और एवं दाई और दो - दो शब्द दिए गए होते हैं। दोनों और के शब्दों में एक-एक शब्द लुप्त रहता है।

लुप्त शब्द को नीचे दिए विकल्पों में से ज्ञात करता होता है।

उदाहरण - 7 :- निम्न प्रश्न में लुप्त शब्द को नीचे दिए गए विकल्प में से ज्ञात करें।

A : भद्रा :: शान्ति : B

- (A) A : शुन्दर, B-युद्ध
 (B) A - मित्रता, B - शोर
 (C) A - ईमानदारी, B - शान्ति
 (D) A & शंख्या, B - हड्डताल

Ans. (A)

हल:- जिस प्रकार, शुन्दर और भद्रा एक दुसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। उसी प्रकार, शान्ति और युद्ध भी एक दुसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं।

प्रकार - 2 औंग्रेजी अक्षर शादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्न, औंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या अक्षर शब्दों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रथम दो अक्षर - शब्दों के शब्दन्ध को ज्ञात करके इसी आधार पर तीसरे अक्षर - शब्द के लिए शही उत्तर को विकल्पों में से ज्ञात करना होता है।

औंग्रेजी अक्षर तथा उनकी शंख्या :-

औंग्रेजी अक्षर A B C D E F G H I J K L M

शंख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

औंग्रेजी अक्षर N O P Q R S T U V W X Y Z

शंख्या 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

औंग्रेजी अक्षर के लिए और व्यंजन अक्षर :-

लिए अक्षर - A, E, I, O, U

व्यंजन अक्षर - B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

उदाहरण - 8

CHAIR : RIAHC :: TABLE : ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) BLAET | (B) ETABL |
| (C) LETAB | (D) ELBAT |

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार

CHAIR → RIAHC

उत्ती प्रकार

TABLE → ELBAT

उदाहरण - 9


HORSE : SERHO :: CURSE : ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) RCUES | (B) SECRU |
| (C) SERCU | (D) ERCUS |


Ans. (C)

हल :-

जिस प्रकार



उत्ती प्रकार



उदाहरण - 10

EGH : IJK :: NPQ : ?


- | | |
|---------|---------|
| (A) PRS | (B) RSU |
| (C) RTU | (D) RST |

Ans. (D)

हल :-

जिस प्रकार

उत्ती प्रकार



प्रकार - 3 क्रमेंडी शब्द शादृश्यता :-

इसके क्रमागत आगे वाले प्रश्न क्रमेंडी शब्दों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रथम दो शब्दों के सम्बन्धों को ज्ञात करके इसी आधार पर तीसरे शब्द के लिए उत्तर विकल्पों में से ज्ञात करते हैं।

(i) सम्बन्धित शब्द ज्ञात करना

उदाहरण - II :- मिम्न प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें, जो तीसरे शब्द से ठीक उत्ती तरह सम्बन्धित है जिस प्रकार दुसरा पद पहले पद से सम्बन्धित है।

Shallow : Profound :: Synonym : ?

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) Context | (B) Antonym |
| (C) Meaning | (D) Content |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार Shallow का विपरीतार्थक शब्द Profound होता है, उत्ती प्रकार, Synonym का विपरीतार्थक शब्द Antonym है।

(ii) शब्द युग्म के समक्ष शब्द युग्म ज्ञात करना :-

उदाहरण - 12 :- मिम्नलिखित में से शब्दों का कौन-सा युग्म वैश्वा ही सम्बन्ध दर्शाता है। जिस प्रकार का सम्बन्ध Fan : Heat के बीच है?

- | |
|-------------------|
| (A) Water : Drink |
| (B) Food : Hunger |

(C) Light : Night

(D) Air : Breath

Ans. (B)

हल :- जब गर्मी (Heat) होती है, तब पंखा (Fan) चलाया जाता है, उसी प्रकार भूख (Hunger) लगने पर भोजन (Food) किया जाता है।

प्रकार - 4 - संख्या सादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत आने वाले प्रश्नों में संख्याओं के क्रम, संख्याओं के वर्गों के क्रम, अभावय संख्याओं के क्रम आदि पर आधारित प्रश्न पुछे जाते हैं, दुसरे शब्दों में इसके अन्तर्गत पुछे जाने वाले प्रश्न गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होते हैं।

उदाहरण - 13 :- 3x विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से 3xी प्रकार सम्बन्धित है जिस प्रकार दूसरा पद, पहले पद से सम्बन्धित है।

23 : 69 : 27 : ?

(A) 91

(B) 73

(C) 81

(D) 89

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार $23 \times 3 = 69$

उसी प्रकार $27 \times 3 = 81$

उदाहरण - 14 दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित संख्या को चुनिए।

8 : 32 :: 6 : ?

(A) 31

(B) 22

(C) 18

(D) 21

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार $= 8^2 = 64$

$64 \div 2 = 32$

उसी प्रकार $= 6^2 = 36$

$$36 \div 2 = 18$$

उदाहरण - 15 :- दिए गए विकल्पों में से 3x विकल्प को छात कीजिए जो $10 : 18 :: 16$ के समान है।

(A) 8 : 10 : 15

(B) 13 :

16 : 19

(C) 23 : 29 : 23


(D) 10 :

16 : 23

Ans. (B)


हल :- जिस प्रकार

$$10 : 13 :: 16$$



उसी प्रकार

$$13 + 16 + 19$$



उदाहरण हल सहित

(1) जिस प्रकार औनिक का सम्बन्ध देना होता है, उसी प्रकार खिलाड़ी का सम्बन्ध किससे है ?

(A) खेल

(B) कपडान

(C) टीम

(D) खेलकूद

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार, औनिक देना का एक भाग होता है, उसी प्रकार, खिलाड़ी, टीम का एक भाग होता है।

(2) एक जैसे शिरा से सम्बन्धित हैं वैसे ही तेल किससे सम्बन्धित हैं ?

(A) कार

(B) पाइपलाइन

(C) इंजन

(D) पेट्रोल

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, एकत शिरा में बहता है, उसी प्रकार तेल, पाइपलाइन में बहता है।

(3) जिस प्रकार लाल का सम्बन्ध लगा दी है, उसी प्रकार हरा का सम्बन्ध किससे है ?

- | | |
|-----------|----------|
| (A) पेन्ट | (B) टंग |
| (C) चलना | (D) दिया |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार लाल टंग का प्रयोग वाहन को शेकड़े के लिए किया जाता है, उसी प्रकार हरे टंग का प्रयोग वाहन के चलाने या जाने के लिए किया जाता है।

(4) दिवस का शत्रि दी वही सम्बन्ध है जो गोधूलिवेला कादी है।

- | | |
|----------------|------------|
| (A) प्रातः काल | (B) ऊजाकाल |
| (C) मध्याह | (D) शायकाल |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार दिवस का विलोम शत्रि होता है, उसी प्रकार, गोधूलिवेला का विलोम ऊजाकाल होता है।

(5) जिस प्रकार महाशागर का सम्बन्ध तालाब दी है, उसी प्रकार किलोमीटर का सम्बन्ध किससे है ?

- | | |
|----------------|--------------|
| (A) मीटर | (B) मिलीमीटर |
| (C) सेन्टीमीटर | (D) डेसीमीटर |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार जल का शब्दी बड़ा शंखित अन्त महाशागर है, तबकि शब्दी छोटा अन्त तालाब है, उसी प्रकार किलोमीटर का शब्दी छोटा अन्त मिलीमीटर होगा।

निम्नलिखित प्रश्नों में शही विकल्प का चयन कीजिए।

(6) चौड़ा : शंकीर्ण :: पैना :

- | | |
|------------|------------|
| (A) धारहीन | (B) गुकीला |
|------------|------------|

- | | |
|----------|------------|
| (C) चाकू | (D) खुरदशा |
|----------|------------|

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, चौड़ा का विपरीत शंकीर्ण है उसी प्रकार, पैना का विपरीत धारहीन है।

(7) प्रतिरोध : औम :: विद्युतधारा : ?

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) कैरोड़े | (B) एम्पियर |
| (C) ऐडियन | (D) वोल्ट |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक औम है, उसी प्रकार, विद्युतधारा का मात्रक एम्पियर है।

(8) लखनऊ : उत्तर प्रदेश :: रौची : ?

- | | |
|----------------|---------------|
| (A) झारखण्ड | (B) ओडिशा |
| (C) उत्तराखण्ड | (D) छत्तीशगढ़ |

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, लखनऊ, उत्तरप्रदेश राज्य की राजधानी है, उसी प्रकार, रौची, झारखण्ड राज्य की राजधानी है।

(9) बर्फ : ठण्डक :: पृथ्वी : ?

- | | |
|-------------------|------------|
| (A) वजन | (B) ऊंगल |
| (C) गुरुत्वाकर्षण | (D) अमुद्र |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार, बर्फ में ठण्डक होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है।

(10) ऐश्मकीट : ऐश्म :: नाग : ?

- | | |
|------------|---------|
| (A) विषहर | (B) विष |
| (C) मृत्यु | (D) मरण |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, ऐश्मकीट से ऐश्म प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार, नाग से विष प्राप्त किया जाता है।

(11) शरीर : कंकाल :: ? व्याकरण

- (A) भाषा
- (B) अर्थ
- (C) विद्यालय
- (D) शिक्षक

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, शरीर का मुख्य आधार कंकाल है, उसी प्रकार भाषा का मुख्य आधार व्याकरण है।

(12) मैराथन : दौड़ :: शीतगिर्दि : ?

- (A) शर्की
- (B) भालु
- (C) ट्वप्पल
- (D) गिर्दि

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, मैराथन एक प्रकार की दौड़ है, उसी प्रकार, शीतगिर्दि एक प्रकार की गिर्दि है।

(13) पुरुष : जीवनी :: शष्ट्र : ?

- (A) भूगोल
- (B) इतिहास
- (C) नेता
- (D) जनता

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, किसी पुरुष के जीवन की कहानी, जीवनी होती है, उसी प्रकार, किसी शष्ट्र की कहानी, इतिहास होती है।

निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुनें जो पहले युग्म के शब्दों की भाँति आपस में सम्बन्धित हो।

(14) तीर : धनुष :: ?

- (A) फुटबॉल : हाथ
- (B) शलाद : चाकू
- (C) गोली : बंदुक
- (D) धुक्का : पानी

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार तीर चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार गोली चलाने के लिए बंदुक का प्रयोग किया जाता है।

(15) बुकर पुरस्कार : शाहित्य :: ?

- (A) ग्रेमी पुरस्कार : पत्रकारिता
- (B) पुलित्जर पुरस्कार : पत्रकारिता
- (C) ल्लोबल पुरस्कार : फिल्म
- (D) ऑस्कर पुरस्कार : विज्ञान

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार बुकर पुरस्कार शाहित्य के सम्बन्धित हैं, उसी प्रकार, पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है।

(16) जिस प्रकार ERID सम्बन्धित है DIRE से, उसी प्रकार RIPE सम्बन्धित हैसे।

- (A) EPIR
- (B) REPI
- (C) EPRI
- (D) PEIR

Ans. (A)

हल :- अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है

$$\text{RIPE} = \text{EPIR}$$


(17) जिस प्रकार DRIVE का सम्बन्ध ESJWF से है, उसी प्रकार FIGHT का सम्बन्ध किससे है ?

- (A) EHFGS
- (B) GJHIU
- (C) GJFHU
- (D) EJFGU


Ans. (B)

हल :-

जिस प्रकार



उसी प्रकार




(18) जिस प्रकार WT का सम्बन्ध ON हो तो, उसी प्रकार FC का सम्बन्ध किससे हो ?

- (A) KH (B) MJ
(C) GJ (D) ZW


Ans. (D)

हल :-

जिस प्रकार



उसी प्रकार



(19) ROUGH का UHROG से सम्बन्ध है और PLUCK का UKPLC से सम्बन्ध है तो ANCHOR का सम्बन्ध होता है।

- (A) NHRACO (B) HORANC
(C) ACONHR
(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

Ans. (D)

हल :- निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें छः अक्षर हैं।


(20) EK : MS :: AG : ?

- (A) IM (B) IJ
(C) 10 (D) JP


Ans. (C)

हल :-

जिस प्रकार



उसी प्रकार




(21) NEUROTIC:TICRONEU::PSYCHOTIC:?


- (A) TICCOHPSY
(B) TICOCHPSY
(C) TICCHOPSY
(D) TICHCHOPSY

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार



उसी प्रकार




(22) AZBY : CXDW :: EVFU : ?


- (A) GHTS (B) TGBH
(C) GTHS (D) GSTH

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार



उसी प्रकार




(23) BOTTLE : CQWXQK :: FILLED : ?


- (A) GKOPJJ (B) GKOPJK
- (C) GKPOJJ (D) GHOPJJ

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार



उसी प्रकार



(24) Cricket : Pitch :: Skating : ?

- | | |
|-----------|------------|
| (A) Rink | (B) Ground |
| (C) Cowet | (D) Ring |

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, Cricket, pitch पर खेला जाता है। उसी प्रकार, Skating, Rink में की जाती है।

(25) Oxygen : Burn :: Carbon dioxide : ?

- | | |
|------------------|-------------|
| (A) Isolate | (B) Foam |
| (C) Extinguishes | (D) Explode |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार, Oxygen, Burn में अहायक है। उसी प्रकार, Carbon dioxide, Extinguish में अहायक है।

(26) 17 : 153 :: 24 : ?

- | | |
|---------|---------|
| (A) 213 | (B) 216 |
| (C) 144 | (D) 122 |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, $17 \times 9 = 153$

उसी प्रकार, $24 \times 9 = 216$

(27) 64 : 513 :: 144 : ?

- | | |
|----------|----------|
| (A) 1727 | (B) 1729 |
| (C) 1728 | (D) 1730 |

Ans. (B)

हल :- प्रथम युग्म